

जनपद बाराबंकी

दिनांक 26.11.2021

बाराबंकी पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से दो तमंचा मय तीन अदद जिन्दा कारतूस बरामद-

जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना दरियाबाद व थाना रामसनेही घाट पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को दो तमंचा मय तीन अदद कारतूस के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

⇒ थाना दरियाबाद पुलिस ने एक अभियुक्त को एक अदद तमंचा मय दो अदद कारतूस के साथ किया गिरफ्तार-

दिनांक 25.11.2021 को थाना दरियाबाद पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अमरेश कुमार उर्फ टाइगर उर्फ धनराज पुत्र परशुराम निवासी रहिमापुर मजरे सरायशाह आलम थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी को डिग्गी धाम तालाब के पास से गिरफ्तार किया गया। तलाशी में अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा मय दो जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना दरियाबाद पर मु0अ0सं0 222/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 163/2020 धारा 323/435 भादवि0 थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी
2. मु0अ0सं0 346/2019 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी
3. मु0अ0सं0 047/2019 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी

पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष दरियाबाद श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला जनपद बाराबंकी।
2. उ0नि0 श्री अजय कुमार पाण्डेय थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी।
3. हे0का0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह, का0 विपिन सिंह थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी।

⇒ थाना रामसनेही घाट पुलिस ने एक अभियुक्त को एक अदद तमंचा मय एक अदद कारतूस के साथ किया गिरफ्तार-

दिनांक 25.11.2021 को थाना रामसनेही घाट पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त आकाश पाण्डेय पुत्र रामकुमार पाण्डेय निवासी आलागनी मजरे मालिनपुर थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी को आलागनी मोड़ से गिरफ्तार किया गया। तलाशी में अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना रामसनेही घाट पर मु0अ0सं0 412/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक रामसनेही घाट श्री अजय प्रकाश त्रिपाठी जनपद बाराबंकी ।
2. उ०नि० श्री महेन्द्र सिंह थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी ।
3. का० रणविजय सिंह, का० अनिल यादव थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी ।